


भारत का राजपत्र
The Gazette of India


असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 170] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 20, 1979/चैत्र 30, 1901

No 170] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 20, 1979/CHAITRA 30, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिसे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

संघमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1979

का. आ. 214 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1981 में और
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) (एक सौ बत्तीसवां
संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये इनके शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

5. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में "शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय" शीर्षक अंतर्गत, "स. समाज कल्याण विभाग" उप-शीर्षक के नीचे, प्रियीष्ट 23 के पश्चात् निम्नीलिखित प्रियीष्ट रखी जाएगी, अर्थात् :—

"23क. भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर (अलिमको)।"

नीलम संजीव रेड्डी,

भारत का राष्ट्रपति

[सं. 74/2/2/79-मंत्रि.]

कै. सहगल, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 1979

S.O. 214(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and thirty-second Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Second Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules 1961, under the heading "MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHIKSHA AUR SAMAJ KALYAN MANTRALAYA)", under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SAMAJ KALYAN VIBHAG)", after entry 23, the following entry shall be inserted, namely :—

"23A. Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur (ALIMCO)."

N. SANJIVA REDDY

President of India

[No. 74/2/2/79-Cab.]

K. SAIGAL, Jt. Secy.